



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 7, 2006/अग्रहायण 16, 1928

No. 21]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 7, 2006/AGRAHAYANA 16, 1928

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2006

New Delhi, the 7th December, 2006

सं. 10/1/2006-एम एण्ड जी.—श्री शिवू सोरेन
29-11-2006 से मंत्रिपरिषद् में मंत्री नहीं रहे।

No. 10/1/2006-M&G.—Shri Shibu Soren has, with
effect from 29-11-2006, ceased to be Minister in the Council
of Ministers.

वी. एन. गौड़, संयुक्त सचिव

V.N. GAUR, Jt. Secy.